



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2523]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 2523]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

**का.आ. 3040(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 972(अ), तारीख 1 मई, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के गुना जिले की चाचौड़ा तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 370.950 कि.मी. से 404.220 कि.मी. (शिवपुरी-देवास सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 2 जून, 2012 को "पत्रिका" हिन्दी समाचार पत्र और तारीख 6 जून, 2012 को "दैनिक जागरण" हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 03 के कि.मी. 370.950 से कि.मी. 404.220 तक के भूखण्ड (शिवपुरी से देवास खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।								
क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्ति के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गुना	चाचोडा	(1) बरखेडा खुर्द	99/1	निजी	सिंचित	1.000	ओमप्रकाश पुत्र कैलाशनारायण जाति मीना,
				99/2/2	निजी	सिंचित	1.303	राधेश्याम पुत्र कैलाशनारायण जाति मीना
				113/6/12/5	निजी	सिंचित	0.300	शिवा पुत्र किशोरा जाति चमार
				425/1/2 [k	निजी	सिंचित	0.037	विक्रम पिता शेषनारायण राजपूत
				425/1/2 d	निजी	सिंचित	0.037	धारा सिंह पुत्र शेषनारायण सिंह जाति राजपूत नि० कालापहाड़
			(2) खेजडा कंला	85/4/1	निजी	सिंचित	0.169	भूरसिंह पुत्र रन्धीर सिंह जाति राजपूत नि. कालापहाड़
				75/3	निजी	असिंचित	0.004	धारा सिंह पुत्र शेषनारायण सिंह जाति ठाकुर नि० कालापहाड़
				83/1	निजी	सिंचित	0.344	कप्तान सिंह मलखान सिंह, माधोसिंह, हल्केसिंह पुत्रगण समेन्द्र सिंह गुडडी बाई, रीना बाई, लक्ष्मीबाई पुत्रियां समेन्द्र सिंह मु. शिरियाबाई बेवा समेन्द्र सिंह हि. 1/2 राजेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह जाति ठाकुर नि० काला पहाड़ हि. 1/2 भूमि स्वामि
			(3) बरखेडी माफी	492	निजी	सिंचित	0.451	शिवलाल, बृजनारायण, रम्भा बाई, बादाम बाई, प्रेम बाई पिता मदन सिंह जाति मीना
				468/1[k	निजी	असिंचित	0.028	हीरासिंह पुत्र अमरसिंह जाति राठौर नि० कुम्भराज
				490/1	निजी	पड़त	0.021	ममता बाई बेवा रामेश्वर जाति मीना
				313/1	निजी	असिंचित	0.021	कृष्णदास, राधिका दास, बलवीरदास, रणछेड़दास पुत्र गोपालदास व देवकी बाई, उमाबाई, अवन्ती बाई, रमा बाई, चंद्रलेखा बाई पिता गोपालदास जाति बैरागी नि० ग्राम कुरवाई
			(4) रमडी	410/10/12/1	निजी	सिंचित	0.020	चिरोजी लाल पुत्र वशी लाल जाति मेर
			(5) रामडा	151	निजी	असिंचित	0.009	चंदन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह मीना नि. खेजडा खुर्द
				157/3	निजी	कुआ	0.010	हजारीलाल देवलाल पुत्रगण रोडूलाल मीना
			(6) खेजडा खुर्द	123	शासकीय	नाला	0.047	शासकीय नाला
				44/2	निजी	सिंचित	0.003	ओमप्रकाश पुत्र धीरज सिंह जाति मीना
				44/1	निजी	सिंचित	0.004	श्रीलाल, हरिचरण पुत्रगण रामसिंह मीना
				87	शासकीय	कदीम	0.200	शासकीय कदीम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(7) चारनपुरा	113	शासकीय	कदीम	0.083	बललू पुत्र नन्लाल मेहतर, नन्लाल पुत्र रतनलाल मिथुन परमार पुत्र रतनलाल मेहतर, कालूराम पुत्र राधेश्याम मेहतर, मदनलाल पुत्र राधेश्याम, राधेश्याम पुत्र नैनकराम, हरिसिंह पुत्र हरदेव, धनलाल पुत्र हरदेव, मुरारी पुत्र धन्नालाल, देवकरण पुत्र रामप्रसाद सेहरीया
			(8) जेयेसिंहपुरा	144	निजी	पड़त	0.002	समन्दर सिंह, गजेन्द्र सिंह राधेश्याम बा० युवराज सिंह, मलखान सिंह, राकेशसिंह ना० बा० पिता हीरासिंह मु. गूदा बाई बेवा हीरा सिंह व रामदुलारी पुत्री हीरा सिंह 1/3 ना० बा० सर. मां प्रयाग सिंह बादाम सिंह भुजवल सिंह भगवान सिंह पुत्रगण मूलचन्द शान्ति बेवा मूलचन्द दयाबाई पुत्री मूलचन्द, 1/3 बहादुर सिंह, 1/9 छोटे सिंह पुत्रगण हुवव सिंह जाति राजपूत जयसिंहपुरा
				120/3	निजी	सिंचित	0.080	देवलाल पुत्र धनसिंह जाति घोसी बीनागंज
				129/2	शासकीय	कदीम	0.003	शासकीय कदीम, तहसीलदार सिंह पुत्र कोमल सिंह राजपूत नि. बीनागंज (सर्वे नं. 126/2)
				65/1/3	निजी	सिंचित	0.023	शोस्या पुत्र भेरया व हरिचरण पुत्र रामकिशन चमार
			(9) चाचोडा	1489/1	शासकीय	पड़त	0.435	शासकीय
				1494	निजी	कुंआ	0.021	बृजकिशोर, रामसेवक वा० हरिशंकर राजू ना० बा० पुत्रगण जगन्नाथ कान्ती, भगवती पुत्री जगन्नाथ, गोपाली बेवा जगन्नाथ बा० सर० माता गोपाली हि 1/3 जाति राव रोडया सूरज किशनलाल पुत्र गेंदालाल जाति लोधा नि० सावलपुरा नेमीचन्द्र पुत्र रामदेव गीताबाई पुत्री रामदेव हि. 1/3 जाति राव
				1490	निजी	पड़त	0.011	गोपाल, मन्दू पुत्र राजकुमार शोभा शशी विन्ना, गुडडी पुत्रीयां राजकुमार मु. मनोरमा बेवा राजकुमार जाति ब्राह्मण हि. 1/3 मदनमोहन, ब्रजमोहन पुत्रगण रामकृष्ण हि. 2/3 जाति ब्राह्मण नि० चांचौडा, काबिज गोपाल पुत्र राजकुमार
				1489/1 [k	शासकीय	पड़त	0.418	मध्य प्रदेश शासन
				1521/3	निजी	असिंचित	0.010	मतीन अहमद, सगीर अहमद, मुस्तफा सिद्दीकी, असगर सिद्दीकी अकबर पिता युसुफ खां, बानो बेवा युसुफ खां हि. 1/4 अब्दुल रज्जाक खां अहमद खां पुत्रगण गफूर खा मु. मरियम बाई (धुली बाई) बेवा गफूर खां हि. 3/4 जाति मुसलमान
				1499	शासकीय	सड़क		शासकीय
				1489/1d	निजी	सिंचित	0.366	गोपाल, मन्दू पुत्रगण राजकुमार शोभा शशी विन्ना गुडडी बाई पुत्रीयां राजकुमार मु. मनोरमा बेवा राजकुमार जाति ब्राह्मण
			(10) बामोरी	29	शासकीय	नाला	0.010	शासकीय नाला
				10	शासकीय	कदीम	0.004	शासकीय कदीम
				33/1 d	निजी	सिंचित	0.038	कोमल पुत्र फूलचंद जाति लोधा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				33/1 [k	निजी	सिंचित	0.038	गोपाल पुत्र कजोड़ी जाति लोधा
				33/1 x	निजी	असिंचित	0.038	मानसिंह पुत्र देवलाल हि. 7/18 सुन्दरबाई पुत्री देवलाल हि. 7/18 शान्ति भूलि पि. देवलाल हि. 1/18 शांति भूली पिता देवलाल हि. 1/9 कमला देवा हरिसिंह, व प्रकाश कालूराम पुत्र हरिसिंह व सीमा ना.बा. पुत्री हरिसिंह जाति लोधा
				23	निजी	कुआ	0.246	चांदसिंह जयेन्द्र सिंह, अमृतलाल पुत्रगण रामरतन गूजर
				24	निजी	सिंचित	0.010	चांदसिंह जयेन्द्र सिंह, अमृतलाल पुत्रगण रामरतन गूजर
				24/177	निजी	आबादी	0.052	अमृतलाल पुत्र रामरतन जाति गूजर, चांदसिंह पुत्र रामरतन जाति गूजर, पवन कुमार पुत्र चांदसिंह गुर्जर, हरिओम पुत्र जयेन्द्र सिंह गुर्जर, शिवनारायण पुत्र इन्दर सिंह जाति गुर्जर
			(11) पेची	148/1/1	शासकीय	अकृषि योग्य	0.100	शासकीय पोषण अहार
				258	निजी	असिंचित	0.003	पारसमल पुत्र केशरीमल जाति जैन
				56/1	शासकीय	कदीम	0.134	शासकीय कदीम
				57	निजी	कुआ	0.007	शिवचरण पुत्रगण गुणसागर जाति ब्राह्मण
				79	निजी	असिंचित	0.068	अमृतलाल पुत्र शंकरलाल विश्वकर्मा, मिथलेश कुमारी ना.बा. बांकेलाल सर. अमरचंद, पुत्र रामजीलाल जैन नि. खतोरा हि. 1/2 जिला शिवपुरी व शीला बाई बेवा पारसमल जाति जैन रेणुवाल पुत्री पारसमल जाति जैन हि. 1/2.
				146/1/3	निजी	मकान	0.003	नन्दकिशोर पुत्र हेमराज पालीवाल
				149/1/4	शासकीय	अकृषि योग्य	0.100	शासकीय पोषण अहार
				262	निजी	कुआ	0.010	हेमराज शिवराज निरंजन पुत्र जमनालाल, रामसिंह पुत्र घांसी व भरपाई पुत्री घांसी 1/4 देवलाल, मांगी लाल पुत्र भमरलाल हि. 1/4 लक्ष्मीनारायण पुत्र वंशीलाल हि. 1/8 बनवारी लाल, रामजीवन पुत्रगण कजोड़ीलाल हि. 1/8 महेन्द्र सिंह उर्फ रूपसिंह रोडमल चैनसिंह पुत्र हरमजन, सूरज पुत्री हरमजन जाति मीना हि. बराबर हि. 1/4
				257	निजी	कुआ	0.001	पारसमल पुत्र केशरीमल जाति जैन
				184/2	निजी	मैदान	0.036	पन्नालाल जैन मुनी ट्रस्ट पैंची व्यवस्थापक महावीर प्रसाद जैन
				165	शासकीय	पड़त	0.018	विजय सिंह पुत्र बाबूलाल लोधा, कोमल प्रसाद पुत्र रामनारायण सेन, लक्ष्मीनारायण पुत्र देवलाल चोरसिया, पुष्पाबाई चिरोजीलाल चोरसिया, शासकीय खंती, बनवारी लाल सेन पुत्र भमरलाल सेन, गोपाल पुत्र हेमराज पालीवाल, नन्दकिशोर पुत्र हेमराज पालीवाल, रघुवीर पुत्र भोलाराम कुम्हार (अतिक्रमण)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				167	शासकीय	पड़त	0.016	श्याम पुत्र शिवलाल, केदारलाल पुत्र चंपालाल शर्मा, लखन पुत्र सीताराम चौरसिया, प्रकाश पुत्र आशाराम विश्वकर्मा, घनश्याम पुत्र बिहारीलाल धोवी, चेताराम पुत्र देवलाल कुम्हार, बनवारीलाल शंकरलाल सेन, बद्रीलाल कन्दौराम कुमार, नारायणसिंह चेताराम पुत्र गोरीशंकर, छोटेलाल पुत्र कालूराम शर्मा, राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण चौरसिया, बालकेशन पुत्र छीतरलाल लोधा, ग्राम पंचायत, दीपचंद पुत्र विजय कुमार पालीवाल, रामविलास पुत्र जयनारायण मीना, लक्ष्मण पुत्र अमर सिंह मीना, मांगीलाल पुत्र बिहारी लोधा, रामेश्वर पुत्र बद्रीलाल सेन (अतिक्रमण)
				260/2/1	निजी	सिचित	0.154	पारसमल पुत्र कैशरीमल जाति जैन
		(12) किस्वाडा		98/1/2	निजी	असिचित	0.030	शिवलाल, मूलचन्द, हजारी लाल, नारायण सिंह, पुत्र भागचन्द, सम्पत बाई, शांती बाई, राममूर्ती पुत्री भागचन्द लोधा नि० पेंची
				152	शासकीय	रास्ता	0.006	शासकीय रास्ता
				159 es ls	निजी	मकान	0.006	हुकुम सिंह भागीरथ भील
					निजी	मकान	0.015	भागचन्द पुत्र चम्पालाल कोरी
				98/2	निजी	मकान	0.005	(1) कन्हैयालाल पुत्र भेरुलाल लोधा (अर्जित रकबा 0.002), (2) प्रभुलाल पुत्र भेरुलाल लोधा (अर्जित रकबा 0.003)
				59	शासकीय	पड़त	0.010	शासकीय चबूतरा
				150	निजी	मकान	0.009	दिलीप, धीरज सिंह पुत्रगण बापूलाल भील
		(13) कोटरा		99	निजी	पड़त	0.001	राजनारायण पुत्र मोतीलाल हि. 1/6 रामस्वरूप भारत सिंह पुत्र कैलाश नारायण हि. 1/6 वीरेन्द्रसिंह चन्द्रप्रकाश पुत्र सधुवीर सिंह हि. 1/6 धरम सिंह, इन्दर सिंह पुत्र रामप्रसाद व मु. काशी बाई बेवाराम प्रसाद, कमला बाई, विद्या बाई पुत्री रामप्रसाद हि. 1/6 सूरज बाई बेबा लक्ष्मीनारायण रणधीर सिंह भगवान सिंह पुत्रगण लक्ष्मीनारायण सावित्री चन्द्रकला बाई, ओमप्रकाश बाई, भगवती बाई पिता लक्ष्मीनारायण, काशी बाई पत्नि दोलत सिंह, सुमित्रा बाई ना०बा० पुत्री दोलत सिंह ना०बा० सर. माता काशी बाई स्वयं हि. 1/6 बैजन्ती बाई बेबा दशरथ सिंह, प्रेम, रामसिंह, प्रवेश सिंह व मांगी बाई पिता दशरथ सिंह सर. मां बैजन्ती बाई रामभरोसा पुत्र, रामगोपाल हि. 1/6 जाति मीना
				106	शासकीय	सड़क	0.002	शासकीय सड़क
				107/2	शासकीय	सड़क	0.032	शासकीय सड़क
				102	शासकीय	सड़क	0.002	शासकीय सड़क
				105	शासकीय	सड़क	0.018	शासकीय सड़क
				112	शासकीय	सड़क	0.029	शासकीय सड़क (सर्वे नं. 112/2)
				113	शासकीय	सड़क	0.026	शासकीय सड़क
				115	शासकीय	सड़क	0.001	शासकीय सड़क

u8276H/12-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				180	निजी	सिंचित	0.004	अमरी बाई बेवा अमर सिंह, कमलेश पुत्र अमर सिंह व शोभा पुत्री अमर सिंह, मोलाराम, श्रीलाल पुत्रगण देवलाल हि. 3/12 बसन्ती पुत्री देवलाल 1/12 बापूलाल नन्नु लाल पुत्र वंशी लाल रम्भा पुत्री वंशी लाल मु. हीरा बेवा वंशीलाल हि. 1/3 शिवनारायण पुत्र हजारीलाल जाति मीना
				256	निजी	कुआ	0.001	मुन्नी बाई पत्नि प्रेमनारायण जाति मीना,
				208/1	निजी	असिंचित	0.040	मदल लाल, मूलचन्द पुत्र हीरालाल मु० बीजोबाई बेवा हीरालाल रतनबाई पुत्री हीरालाल हि. 4/5 नन्दकिशोर पुत्र कन्हैयालाल, सुगनबाई, कान्ताबाई पुत्री कन्हैयालाल मु० पारोबाई बेवा कन्हैयालाल हि० 1/5 माली
				208/2	निजी	सिंचित	0.039	रामबाबू पुत्र गोपीलाल हि. 1/4 रामदयाल पुत्र हजारीलाल हि. 1/2 गोपी पुत्र भुर्या हि. 1/4 जाति माली
				260/2	निजी	सिंचित	0.052	कांती बाई पत्नि मिश्रीलाल जाति मीना
				577/1	शासकीय	स्कूल	0.105	शासकीय स्कूल
				577/11/1	निजी	असिंचित	0.098	श्रीमती ममता पत्नि चन्द्रप्रकाश, श्रीमती रेखा पत्नि वीरेन्द्र जाति मीना
				577/11/3	निजी	असिंचित	0.057	प्रीतम सिंह पुत्र किशन लाल जाति मीना
				577/11/2	निजी	असिंचित	0.058	तखत सिंह पुत्र किशन लाल जाति मीना
				577/11/4	निजी	असिंचित	0.060	रेखा बाई बेवा, सूरज सिंह व बृजेन्द्र कुमार पुत्र सूरज सिंह जाति मीना
				577/11/5	निजी	असिंचित	0.056	बृजमोहन पुत्र किशन लाल जाति मीना
				219/1/2	निजी	सिंचित	0.023	बृजमोहन पुत्र किशन लाल जाति मीना
				190/1	निजी	असिंचित	0.002	राजनारायण पुत्र मोतीलाल जाति मीना
				24	शासकीय	आबादी	0.021	शासकीय आबादी
				229	शासकीय	चबूतरा	0.031	शासकीय चबूतरा
			(14) जोगीपुरा	85	शासकीय	तलाई	0.280	शासकीय तलाई
				60	शासकीय	सड़क	0.236	शासकीय खन्ती
				27/2	निजी	असिंचित	0.033	मनोज अर्पित पुत्र मोहन सिंह जाति मीना नि० कोटरा
				54	शासकीय	सड़क	0.009	शासकीय खती सड़क
				46/1	शासकीय	चरनोई	0.008	शासकीय चरनोई, पूनमचंद पुत्र धनाजी भील, कन्हैयालाल पुत्र मथरालाल सेन, वीरम पुत्र अमराजी भील, पप्पू पुत्र रुग्नाथ जाति भील, शासकीय प्रतिकालय, गुलाब बाई बेवा सरदार भील, जीतमल चम्पालाल चमार, वीरम पुत्र - किशनलाल चमार,
				143/4	शासकीय	आबादी	0.039	ग्यारसीराम पुत्र गोरेलाल चमार, रोड़लाल पुत्र गोरेलाल चमार, रामबगस पुत्र गोरेलाल, नाथूलाल पुत्र पन्नालाल भील, बाबूलाल पुत्र रतनाजी भील, मु. पाची बाई बेवा प्रेमनारायण भील, मु. दफू बेवा मांगीलाल भील, ई.जी.एस. स्कूल इन्द्रा कालोनी जोगीपुरा
				164	शासकीय	अकृषि योग्य	0.002	शासकीय

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				163	शासकीय	अकृषि योग्य	0.001	शासकीय तपाई
				42/4	निजी	सिंचित	0.357	विनोद, राजू, राहुल पुत्रगण कैलाश मु. कोमल बाई बेवा कैलाश जाति महतर
				153	शासकीय	आबादी	0.013	भारत गिर पुत्र जगन्नाथ गिर गुसाई
		(15) खेरे		9	निजी	असिंचित	1.505	रामचरण बालिग प्रेमनारायण नारान सिंह ना0 बा0 पुत्रगण मानसिंह हि. 1/3 सख0 भाई रामचरण व रंगलाल हरवगस पिता भारमल हि. 2/3 जाति गूजर
				161/1/d	निजी	असिंचित	0.057	देवलाल हीराबाइ पुत्री मोतीलाल जाति गूजर
				161/1 [k	निजी	असिंचित	0.050	हरलाल हीराबाइ पुत्री मोतीलाल जाति गूजर
				180/8	निजी	पड़त	0.178	हरमजन दयाराम रामसिंह दयाल सिंह, चन्दर सिंह व बादाम बाई, गीता बाई कंचन बाई पिता रतनलाल जाति गूजर
				161/2	निजी	पड़त	0.003	हरमजन दयाराम रामसिंह दयाल सिंह, चन्दर सिंह व बादाम बाई, गीता बाई कंचन बाई पिता रतनलाल जाति गूजर
				18/7/1 [k	निजी	असिंचित	0.015	विनीत प्रियंक पुत्र इन्दरलाल मु. शकुन्तला बेवा इन्दरलाल जाति गूजर (सर्वे नं. 180/7/1ख)
				180/7/1 d	निजी	सिंचित	0.025	हरलाल पुत्र मोतीलाल जाति गूजर
				181	निजी	असिंचित	0.029	हरलाल पुत्र मोतीलाल जाति गूजर
				202	शासकीय	नाला	0.006	मध्य प्रदेश सरकार
				195/2	निजी	सिंचित/मकान	0.250	(1) छोटेलाल पुत्र ऊंकारलाल साहू, (2) संजू पुत्र कल्याण प्रसाद साहू, (3) नारायण लाल पुत्र ऊंकारलाल साहू (4) सुनील कुमार पुत्र कल्याण प्रसाद
				192	शासकीय	आबादी	0.001	शासकीय आबादी
				193	शासकीय	कुआ	0.010	शासकीय कुआ
				194/8	शासकीय	पड़त	0.043	शासकीय पड़त
				194/6 d	शासकीय	आबादी	0.099	शासकीय आबादी, कन्हैया लाल शिवलाल काछी, गीताबाई पत्नी देवेन्द्र कुमार साहू, अशोक कुमार, मुकेश कुमार पुत्र बाबूलाल शिवहरे, सुरेश कुमार पुत्र शान्तीलाल शिवहरे, गीताबाई बेवा बाबूलाल शिवहरे, भगवान लाल पुत्र जगन्नाथ शिवहरे, प्रेमबाई बेवा मांगीलाल शर्मा, कस्तूरी बेवा प्रेमनारायण शिवहरे, सजन देवी पत्नी हरिओम साहू, मोहन लाल पुत्र प्रेमनारायण शिवहरे, फूलसिंह पुत्र मदनलाल कुशवाह, ओमप्रकाश, भगवान लाल, दोलतराम पुत्रगण गुलाबचन्द साहू, रामभजन पुत्र पूनमचन्द शिवहरे, शिवलाल पुत्र कमरलाल शिवहरे, रीना पत्नी दीरेन्द्र कुमार साहू
				27/1/4	निजी	पड़त	0.006	महेन्द्र सिंह पुत्र बन्सीलाल जाति लोधा
				27/1/8	निजी	असिंचित	0.002	नारायण सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति लोधा नि. बीनागंज
				146	निजी	असिंचित	0.001	शिवलाल, हरिप्रसाद पुत्र कमरलाल
				145	निजी	पड़त	0.010	जगमोहन, रामदयाल, रघुवीर पुत्रगण कालूराम, गुलाब बाई पुत्री कालूराम व काशीबाई बेवा कालूराम हि0 1/2 बाबू लाल पुत्र मूलचन्द हि. 1/2 जाति काछी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				128	निजी	पड़त	0.001	धन्ना सिंह, पूरन सिंह, शम्भू सिंह, शिवराज सिंह पुत्र हीरा जाति राजपूत
				115	निजी	असिंचित	0.046	इन्दर पुत्र गोरया जाति महतर, भैयालाल, पन्ना लाल पुत्र वन्दना जाति महतर
				183	शासकीय	सड़क	0.052	शासकीय सड़क
				129	शासकीय	आबादी	0.068	शासकीय आबादी, कैलाश, मोहन, नीलेश, मुकेश पुत्र प्रेमनारायण शिवहरे
				116	निजी	सिंचित	0.006	कल्ला, जमना, रतन पुत्र गपुआ जाति काछी

[फा.सं. भाराप्र/पीआईयू/गुना/2012]

माया प्रकाश, उप-सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2012

**S.O. 3040(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number **S.O. 972(E.) Dated 01.05.2012 Published** in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc.), maintenance, management and operation of **National Highway No.3 on the stretch of land from Km 370.950 to Km. 404.220 (Shivpuri-Dewas Section) in Tehsil Chachoda, District Guna** in the State of Madhya Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Patrika News Paper in Hindi" dated 02.06.2012 and "Dainik Jagran News Paper in Hindi" dated 06.06.2012; under sub section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objection have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, namely, Officer incharge, Land Acquisition Branch Collector Office Guna, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest absolutely in the Central government, free from all encumbrances.



## SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 370.950 to Km.404.220 (Shivpuri - Dewas Section) of the National Highway No. 03 in the State of Madhya Pradesh.								
Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in hectares	Name of the land Owner /Interested Person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Guna	Chachoda	(1) Barkheda Khurd	99/1	Private	Irrigated	1.000	Omprakash S/o Kelashnarayan Caste Meena
				99/2/2	Private	Irrigated	1.303	Radheshiyam S/o Kelashnarayan Caste Meena
				113/6/12/5	Private	Irrigated	0.300	Shibba S/o Kishora Caste Chamar
				425/1/2 [k	Private	Irrigated	0.037	Vikram S/o Shesnarayan Rajput
				425/1/2 d	Private	Irrigated	0.037	Dhara Singh S/o Shesnarayan Singh Rajput
			(2) Khejda Kalan	85/4/1	Private	Irrigated	0.169	Bhure Singh S/o Randheer Singh Caste Rajput R/o Kalapahad
				75/3	Private	Unirrigated	0.004	Dhara Singh S/o Shesnarayan Singh Rajput R/o Kalapahad
				83/1	Private	Irrigated	0.344	Kaptan Singh, Malkhan Singh, Madho Singh, Halke Singh S/o Samendra Singh, Guddi Bai, Reena Bai, Laxmi Bai D/o Samendra Singh Mu. Shiriya Bai Widow Samendra Singh Hi. 1/2 Rajendra Singh S/o Amar Singh Caste Thakur R/o Kalapahad Hi. 1/2
			(3) Bakhedi Mafi	492	Private	Irrigated	0.451	Shivlal, Brajnaranayan, Rambha Bai, Badam Bai, Prem Bai S/o Madan Singh Caste Meena
				468/1[k	Private	Unirrigated	0.028	Heera Singh S/o Amar Singh Caste Rathor R/o Kumbhraj
				490/1	Private	Padat	0.021	Mamta Bai Widow Rameshwar Caste Meena
				313/1	Private	Unirrigated	0.021	Krishandas, Radhika Das, Balveer Das, Ranchhor Das S/o Gopal Das & Devaki Bai, Uma Bai, Avanti Bai, Rama Bai, Chandralekha Bai D/o Gopaldas Caste Bairagi R/o Village Kurhai
			(4) Ramdi	410/10/12/1	Private	Irrigated	0.020	Chironji Lal S/o Vanshi Lal Caste Mer
			(5) Ramda	151	Private	Unirrigated	0.009	Chandan Singh S/o Rghuveer Singh Meena R/o Khejda Khurd
				157/3	Private	Well	0.010	Hajaari Lal, Devlal S/o Rodulal Meena
			(6) Khejad Khurd	123	Government	Drain	0.047	Government Drain
				44/2	Private	Irrigated	0.003	Omprakash S/o Dheeraj Singh Caste Meena
				44/1	Private	Irrigated	0.004	Shrilal, Haricharan S/o Ramsingh Meena
				87	Government	Kadeem	0.200	Government Kadeem

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(7) Charanpura	113	Government	Kadeem	0.083	Ballu S/o Nannulal Mehatar, Nannulal S/o Ratanlal, Mithun Parmar S/o Ratanlal Mehatar, Kaluram S/o Radheshiyam Mehatar, Madanlal S/o Radheshiyam, Radheshiyam S/o Nenakram, Harisingh S/o Hardev, Dhanlal S/o Hardev, Murari S/o Dhannalal, Devkaran S/o Ramprasad Sehariya
			(8) Jaiyesingh pura	144	Private	Padat	0.002	Samndar Singh, Gajendra Singh, Radheshiyam, Yovraj Singh, Malkhan Singh, Rakesh Singh Minor S/o Heera Singh Mu. Gunda Bai Widow Heera Singh, Ramdulari D/o Heera Singh 1/3 Minor Guardian Mother Prayag Singh, Badam Singh, Bhujval Singh, Bhagvan Singh S/o Moolchand Shanti Widow Moolchand Dayabai D/o Moolchand, 1/3 Bahadur Singh, 1/9 Chhote Singh S/o Hubb Singh Caste Rajput Jaysingpura
				120/3	Private	Irrigated	0.080	Devlal S/o Dhansingh Caste Ghosi Beenganj
				129/2	Government	Kadeem	0.003	Govt. Kadeem, Tehsildar Singh S/o Komal Singh Rajput R/o Beenganj (Surv. no. 126/2)
				65/1/3	Private	Irrigated	0.023	Shoshiya S/o Bherav, Haricharan S/o Ramkishan Chamar
			(9) Chachoda	1489/1	Government	Padat	0.435	Government
				1494	Private	Well	0.021	Brajkishor, Ramsevak, Harishankar, Raju Minor S/o Jagannath, Kanti, Bhagvati D/o Jagannath, Gopali Widow Jagannath Guardian Mother Gopali Hi. 1/3 Caste Rao, Rodiya, Sooraj, Kishanal S/o Gendalal Caste Lodha R/o Sabalpur Nemichandra S/o Ramdev Geetabai D/o Ramdev Hi. 1/3 Caste Rao
				1490	Private	Padat	0.011	Gopal, Mantu S/o Rajkumar Shobha Shashi, Binna, Guddi D/o Rajkumar Mu. Manorama Widow Rajkumar Caste Brahman Hi. 1/3 Madanmohan, Brajmohan S/o Ramkrishan Hi. 2/3 Caste Brahman R/o Chachoda, Kabjadhari:- Gopal S/o Rajkuma
				1489/1 (k)	Government	Padat	0.418	Government
				1521/3	Private	Unirrigated	0.010	Mateen Ahmad, Sageer Ahmad, Mustafa Siddiqui, Asgar Siddiqui, Akbar S/o Yosuf Khan, Bano Widow Yosuf Khan Hi. 1/4 Abdul Rajjak Khan ' Ahmad Khan S/o Gafoor Khan Mu. Mariyam Bai (Dhuli Bai) Widow Gafoor Khan Hi. 3/4 Caste Musalman

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1499	Government	Road		Government
				1489/1d	Private	Irrigated	0.366	Gopal, Mantu S/o Rajkumar Shobha Shashi, Binna, Guddi D/o Rajkumar Mu. Manorama Widow Rajkumar Caste Brahman
			(10) Bamori	29	Government	Drain	0.010	Government Drain
				10	Government	Kadeem	0.004	Government Kadeem
				33/1 d	Private	Irrigated	0.038	Komal S/o Phoolchand Caste Lodha
				33/1 [k	Private	Irrigated	0.038	Gopal S/o Kajodi Caste Lodha
				33/1 x	Private	Unirrigated	0.038	Mansingh S/o Devlal Hi. 7/18 Sundar Bai D/o Devlal Hi. 1/18, Shanti Bhooli D/o Devlal Hi. 1/9 Kamia Widow Harisingh & Prakash Kaluram S/o Harisingh & Seema Minor D/o Harisingh Caste Lodha
				23	Private	Well	0.246	Chandsingh Jayendra Singh, Amratlal S/o Ramratan Gujar
				24	Private	Irrigated	0.010	Chandsingh Jayendra Singh, Amratlal S/o Ramratan Gujar
				24/177	Private	Aabadi	0.052	Amratlal S/o Ramratan Caste Gujar, Chand Singh S/o Ramratan Caste Gujar, Pavan Kumar S/o Chand Singh Gurjar, Hariom S/o Jayendra Singh Gurjar, Shivrinarayan S/o Indar Singh Caste Gujar
			(11) Pechi	148/1/1	Government	Uncultivable	0.100	Government
				258	Private	Unirrigated	0.003	Parasmal S/o Keshrimal Caste Jain
				56/1	Government	Kadeem	0.134	Government
				57	Private	Well	0.007	Shivcharan S/o Gunsagar Caste Brahman
				79	Private	Unirrigated	0.068	Amratlal S/o Shankarlal Bishvakarma, Mithlesh Kumari Minor Bankelal Gaurdian Amarchand S/o Ramjilal Jain R/o Khatora Hi. 1/2 Dist. Shivpuri & Shila Bai Widow Parasmal Caste Jain Renuwal D/o Parasmal Caste Jain Hi. 1/2
				146/1/3	Private	House	0.003	Nandkishor S/o Hemraj Paliwal
				149/1/4	Government	Uncultivable	0.100	Government
				262	Private	Well	0.010	Hemraj Shivraj Biranjan S/o Jamnalal, Ramsingh S/o Ghansi & Bharpai D/o Ghansi 1/4 Devlal, Mangilal S/o Bhavarlal Hi. 1/4 Laxminarayan S/o Bansilal Hi. 1/8 Banwari lal, Rmaji Jivan S/o Kajodilal Hi. 1/8 Mahendra Singh Alias Roopsingh Rodmal Chainsingh S/o Harbhajan, Sooraj D/o Harbhajan Caste Meena Hi. Eq. 1/4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				257	Private	Well	0.001	Parasmal S/o Keshrimal Caste Jain
				184/2	Private	Ground	0.036	Pannalal Jain Muni Trust Painchi Manager Mahaveer Prasad Jain
				165	Government	Padat	0.018	Vijau Singh S/o Babulal Lodha, Komal Prasad S/o Ramnarayan Sen, Laxminarayan S/o Devlal Chorasaya, Pushpa Bai Chirojilal Chorasaya, Government Khanti, Banvari Lal Sen S/o Bhavarlal Sen, Gopal S/o Hemraj Paliwal, Nandkishor S/o Hemraj Paliwal, Raghuveer S/o Bholaram Kumhar (Encroachment)
				167	Government	Padat	0.016	Shyam S/o Shivilal, Kedarlal S/o Champalal Sharma Lakhan S/o Seetaram Chorasaya, Prakash S/o Asharam Vishvakarma, Ghanshyam S/o Banshilal Dhobi, Chetram S/o Devlal Kumhar, Banwarilal Shankarlal Sen, Badrilal Kandiram Kumar, Narayan Singh Chetram S/o Gorishankar, Chotelal S/o Kaluram Sharma, Radheshyam S/o Laxminarayan Chorasaya, Balkishan S/o Chitarlal Lodha Gram Panchayat, Deepchand S/o Vijay Kumar Paliwal, Ramvilash S/o Jainarayan Meena, Laxman S/o Amarsingh Meena, Mangilal S/o Bihari Lodha, Rameshwar S/o Badrilal Sen (Encroachment)
				260/2/1	Private	Irrigated	0.154	Parasmal S/o Keshrimal Caste Jain
			(12) Kiswada	98/1/2	Private	Unirrigated	0.030	Shivilal, Mulchand, Hazarilal, Narayan Singh S/o Bhagchand, Sampat Bai, Shanti Bai, Rammurti D/o Bhagchand Lodha R/o Pechi
				152	Government	Rasta	0.006	Government Rasta
				159 मे से	Private	House	0.006	Hukum Singh Bhagirath Bheel
					Private	House	0.015	Bhagchand S/o Champalal Kori
				98/2	Private	House	0.005	(1) Kanahiyalal S/o Bherulal Lodha (Acquire land 0.002 ha.) (2) Prabhoolal S/o Bherulal Lodha (Acquire land 0.003 ha.)
				59	Government	Padat	0.010	Government Chabutra
				150	Private	House	0.009	Dileep, Dhiraj Singh S/o Bapulal Bheel

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(13) Kotra	99	Private	Padat	0.001	Rajnarayan s/o Motilal Hi. 1/6, Ramswaroop, Bharat sing s/o kailash narayan hi. 1/6, virendra sing Chandraprakash s/o * raghuveersingh Hi. 1/6, Dharam sing, Indar sing s/o Ramprasad, Mu. Kashi bai, Bevaram prasad, Kamlabai, Vidyabai D/o Ramprasad Hi. 1/6 Surajbai beba laxminarayan, Randheersingh, Bhagbansingh s/o Laxminarayan, savitri Chandrakala bai, Omprakash bai, Bhagvati bai s/o Laxminarayan, kashibai W/o dolatsingh, Sumitrabai Minor D/o Dolat sing Guardianse kashi bai sir. Hi. 1/6 Baijnati Widow Dashrath sing, Prem, Ram sing, Praveshsingh and mangibai s/o dashrathsingh Sir.Ma. baijantibai, Rambharosha s/o Ramgopal meena Hi. 1/6
				106	Government	Road	0.002	Government Road
				107/2	Government	Road	0.032	Government Road
				102	Government	Road	0.002	Government Road
				105	Government	Road	0.018	Government Road
				112	Government	Road	0.029	Government Road (Survay no. 112/2)
				113	Government	Road	0.026	Government Road
				115	Government	Road	0.001	Government Road
				180	Private	Irrigated	0.004	Amari Bai Widow Amar Singh, Kamlesh S/o Amarsingh Shobha D/o Amarsingh, Bholaram, Shrilal s/o Devlal Hi.3/12, Basanti D/o Devia 1/12, Bapulal, Nannulal S/o Banshilal Hi. 1/3, Shivnarayan S/o Hajarilal Meena
				256	Private	Well	0.001	Munni Bai W/o Premnarayan Caste Meena
				208/1	Private	Unirrigated	0.040	Madanlal, Mulchand S/o Heeralal Mu. Bijobai Widow Heeralal Ratanbai D/o Heeralal Hi. 4/5 Nandkishore S/o Kanhiyalal, Suganbai, Kanatabai D/o Kanhiyalal Mu. Parobai Widow Kanhiyalal Hi. 1/5 Mali
				208/2	Private	Irrigated	0.039	Rambabu S/o Gopilal Hi. 1/4 Ramdayal S/o Hazarilal Hi. 1/2 Gopi S/o Bhurya Hi. 1/4 Caste Mali
				260/2	Private	Irrigated	0.052	Kanti Bai W/o Mishrilal Caste Meena
				577/1	Government	School	0.105	Government School

4827 GI/12-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				577/11/1	Private	Unirrigated	0.098	Smti Marnta W/o Chandraprakash, Smti Rekha W/o Veerendra Caste Meena
				577/11/3	Private	Unirrigated	0.057	Preetam Singh S/o Kishan Lal Caste Meena
				577/11/2	Private	Unirrigated	0.058	Takhat Singh S/o Kishan Lal Caste Meena
				577/11/4	Private	Unirrigated	0.060	Rekha Bai Widow Suraj Singh & Brajendra Kumar S/o Suraj Singh Caste Meena
				577/11/5	Private	Unirrigated	0.056	Brajmohan S/o Kishan Lal Caste Meena
				219/1/2	Private	Irrigated	0.023	Brajmohan S/o Kishan Lal Caste Meena
				190/1	Private	Unirrigated	0.002	Rajnarayan S/o Motilal Caste Meena
				24	Government	Aabadi	0.021	Government Aabadi
				229	Government	Chabutra	0.031	Government Chabutra
			(14) Jogipura	85	Government	Pond	0.280	Government Pool
				60	Government	Road	0.236	Government Khanti
				27/2	Private	Unirrigated	0.033	Manoj Arpit W/o Mohan Singh Caste Meena R/o Kotra
				54	Government	Road	0.009	Government Khanti Road
				46/1	Government	Charnoi	0.008	Government Charnoi, Punamchand S/o Dhanaji Bheel, Kanhaiyalal S/o Mathralal Sen, Veeram S/o Amraji Bheel, Pappu S/o Rughnath Caste Bheel, Government Rest Area, Gulab Bai Widow Sardar Bheel, Jeetmal, Champalal, Veeram S/o Kishanlal Chamar
				143/4	Government	Aabadi	0.039	Giyarsiram S/o Gorelal Chamar, Rodulal S/o Gorelal Chamar, Rambagas S/o Gorelal, Naathulal S/o Pannalal Bheel, Babulal S/o Ratnaji Bheel, Mu. Pachi Bai Widow Premnarayan Bheel, Mu. Dafu Widow Mangilal Bheel, E. G. S. School Indra Colony Jogipura
				164	Government	Uncultivable	0.002	Government
				163	Government	Uncultivable	0.001	Government Tapai
				42/4	Private	Irrigated	0.357	Vinod, Raju, Rahul S/o Kelash Mu. Komal Bai Widow Kelash Caste Mehtar
				153	Government	Aabadi	0.013	Bharat Gir S/o Jagannath Gir Gusai
			(15) Kherve	9	Private	Unirrigated	1.505	Ramcharan, Premnarayan, Naran Singh Minor S/o Mansingh Hi. 1/3 G. Brother Ramcharan & Ranglal, Harwagas S/o Bharmal Hi. 2/3 caste Gurjar
				161/1/d	Private	Unirrigated	0.057	Dev Lal Heerabai D/o motilal Caste Gujar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				161/1 [k	Private	Unirrigated	0.050	Harlal Heerabai D/o motilal Caste Gurjar
				180/8	Private	Padat	0.178	Harbhajan Dayaram RamSingh Dayal Singh, Chandar sing, Badam Bai, Geeta bai, Kanchan Bai D/o Ratanlal Caste Gurjar
				161/2	Private	Padat	0.003	Harbhajan Dayaram RamSingh Dayal Singh, Chandar sing, Badam Bai, Geeta bai, Kanchan Bai D/o Ratanlal Caste Gurjar
				18/7/1 [k	Private	Unirrigated	0.015	Vineet, Prayank S/o Indaral Mu. Shakuntla Widow Indaral Caste Gurjar (Surv. no. 180/7/1 kha)
				180/7/1 d	Private	Irrigated	0.025	Harlal S/o Motilal Caste Gurjar
				181	Private	Unirrigated	0.029	Harlal S/o Motilal Caste Gurjar
				202	Government	Drain	0.006	M.P. Government
				195/2	Private	Irrigated/Ho use	0.250	(1) Chhotelal S/o Unkarlal Shahu, (2) Sanju S/o Kaliyan Prasad Shahu, (3) Narayan Lal S/o Unkarlal Shahu, (4) Sunil Kumar S/o Kaliyan Prasad
				192	Government	Aabadi	0.001	Government Aabadi
				193	Government	Well	0.010	Government Well
				194/8	Government	Padat	0.043	Government Padat
				194/6 d	Government	Aabadi	0.099	Government Aabadi, Kanhaiya Lal, Shivalal Kachhi, Geetabai W/o Devendra Kumar Shahu, Ashok Kumar, Mukesh Kumar S/o Babulal Shivhare, Suresh Kumar S/o Shantilal Shivhare, Geeta Bai Widow Babulal Shivhare, Bhagvan Lal S/o Jagannath Shivhare, Prem Bai Widow Mangilal Sharma, Kasturi Widow Premnarayan Shivhare, Sajan Devi W/o Hariom Shahu, Mohan Lal S/o Premnarayan Shivhare, Phoolsingh S/o Madanlal Kushwah, Omprakash, Bhagvan Lal, Dolatram S/o Gulabchand Shahu, Rambhajan S/o Punamchand Shivhare, Shivalal S/o Rambhajan S/o Punamchand Shivhare, Shivalal S/o Kamarlal Shivhare, Reena W/o Veerendra Kumar Shahu
				27/1/4	Private	Padat	0.006	Mahendra Singh S/o Vanshilal Caste Lodha
				27/1/8	Private	Unirrigated	0.002	Narayan Singh S/o Laxminarayan Caste Lodha R/o Beenagani
				146	Private	Unirrigated	0.001	Shivalal, Hariprasad S/o Kamarlal

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				145	Private	Padat	0.010	Jagmohan, Ramdayal, Raghuveer S/o Kaluram, Gulab Bai D/o Kaluram, Kashibai Widow Kaluram Hi. 1/2 Babu Lal S/o Moolchand Hi. 1/2 Caste Kachhi
				128	Private	Padat	0.001	Dhanna Singh, Pooran Singh, Shambhu Singh, Shivraj Singh S/o Jheera Caste Rajput
				115	Private	Unirrigated	0.046	Indar S/o Goraya Caste Mehatar, Bhaiyalal, Panna Lal S/o Chandan Caste Mehatar
				183	Government	Road	0.052	Government road
				129	Government	Aabadi	0.068	Government Abadi, Kelash, Mohan. Neelesh, Mukesh S/o Premnarayan Shivhare
				116	Private	Irrigated	0.006	Kalia, Jamna, Ratan S/o Gapua Caste Kachhi

[F. No. NHAI/PIU/GUNA/2012]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

मया प्रकाश

Dy. Secy.

Dy. Secy.